



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक:- 19.11.2020

थाना कोतवाली शामली

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर को 02 वर्ष 06 माह कारावास की सजा व अर्थदण्ड ।

अवगत कराना है कि थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चोरी, लूट की घटनाओं में लिप्त रहे अभियुक्त संदीप पुत्र वल्लम निवासी ग्राम लिलोन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 365/15, वाद संख्या 663/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में गैंगस्टर को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ADJ-5 गैंगस्टर कोर्ट मु0नगर में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 19.11.2020 को माननीय न्यायालय एडीजे पंचम मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त संदीप को 02 वर्ष 06 माह कारावास एवं 5000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

01 वांछित अभियुक्त-

थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 558/2020 धारा 279, 304A, 427 भादवि में वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र शकूरा निवासी ग्राम टोड़ा थाना रतनपुरा जनपद मु0नगर को ग्राम लाक बस स्टॉप से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कांधला

खाई बाडी कर रहे 02 गिरफ्तार, कब्जे से 1130/- रुपये नकद व पर्चा सद्दा, गत्ता पेन्सिल बरामद-

दिनांक 18.11.2020 को समय 22.45 बजे थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम अम्बेहटा से 02 अभियुक्त कुलदीप पुत्र रामपाल व बाबूराम पुत्र किशनलाल निवासीगण ग्राम असदपुर जिड़ाना थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 705/2020 धारा 13 जी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8 लीटर कच्ची शराब व 500 ग्राम यूरिया बरामद-

दिनांक 18.11.2020 को समय 21.58 बजे थाना कांधला पुलिस द्वारा डंगडुगरा नहर से 02 अभियुक्त आसिफ पुत्र निसार व शाहनवाज पुत्र शमशाद निवासीगण मौहल्ला खैल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 704/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

आज दिनांक 19.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम उमरपुर से 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- अनिकेत पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1- एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना थानाभवन जनपद शामली।

2- का0 शहजाद अली थाना थानाभवन जनपद शामली।

3- का0 उदित मलिक थाना थानाभवन जनपद शामली।

